

तुरंत रिलीज के लिए

## नई वेबसाइट InvestBrampton.ca लोकल कारोबारियों, उद्यमियों और विदेशी निवेशकों के लिए टूल्स और स्रोत प्रदान करती है

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (3 जून, 2020) – आज, सिटी ने [InvestBrampton.ca](https://www.investbrampton.ca) की शुरुआत की है। यह एक नई वेबसाइट है, जो लोकल कारोबारियों, उद्यमियों और संभावित विदेशी निवेशकों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन स्रोत प्रदान करती है, ताकि वे ब्रैम्पटन में अपना कारोबार स्थापित करने या बढ़ाने के लिए आवश्यक जानकारी और स्रोतों तक पहुंच प्राप्त कर पाएं। नई InvestBrampton.ca वेबसाइट, [सिटी की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(City's Economic Recovery Strategy\)](#) के लिए की जाने वाली तत्काल कार्रवाई को उजागर करती है।

द्विपक्षीय विचारविमर्श पर केंद्रित यह वेबसाइट, साइट के चयनकर्ताओं, संभावित निवेशकों और लोकल कारोबारियों के लिए, तुरंत और आसानी से जानकारी प्राप्त करने और विशेषज्ञ सलाहकारों के साथ जुड़ने को आसान बनाती है। इसकी नई विशेषताओं में शामिल हैं: केंद्रीय स्रोत पेज, साइट चयन टूल और निवेश सेवाओं की नई टीम तक सीधी पहुंच। यह टीम संभावित निवेशकों के लिए एक व्यक्तिगत, अनुकूलित सेवा प्रदान करती है। इस साइट पर लाइव चैट भी की जा सकती है।

13 मई को, ब्रैम्पटन काउंसिल (Brampton Council) ने, लोकल अर्थव्यवस्था को दुबारा बहाल करने की ओर आगे बढ़ने में सिटी के लिए फ्रेमवर्क के तौर पर, इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (Economic Recovery Strategy) को मंजूरी दी थी। मेयर्स कोविड-19 इकोनॉमिक सपोर्ट टास्क फोर्स (Economic Support Task Force) ने सिटी की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी के विकास का मार्गदर्शन किया था। यह चार आधारों: नवीनता, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रीनियरशिप, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कला, संस्कृति व टूरिज्म में से प्रत्येक के अंतर्गत कार्रवाइयां लागू करके हासिल की जाएगी।

ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था की बहाली को सहयोग करने के लिए, हाल ही में शुरू की गई अन्य पहलकदमियों में शामिल हैं, सिटी का [सपोर्ट लोकल अभियान \(Support Local campaign\)](#) और [डिजिटल शॉपहेयर प्रोग्राम \(digital ShopHERE program\)](#)।

ब्रैम्पटन में लगभग 74,000 कारोबारी हैं। 2019 में, ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (Brampton Entrepreneur Centre) ने लगभग 1,000 छोटे कारोबारियों के मशविरे दिए थे और 10,000 से अधिक छोटे कारोबारियों के सवाल का जवाब दिया था।

### हवाले

“हम ब्रैम्पटन की आर्थिक बहाली पर लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए हम पूरा ध्यान इस पर लगाएंगे कि हमारे मौजूदा कारोबारी यहीं पर कारोबार करते रहें और इसे बढ़ाएं। साथ ही, हम हमारी सिटी में नया निवेश लाने पर भी पूरा ध्यान देंगे। यह नई वेबसाइट उन तरीकों में से एक है, जिससे हम हमारे मौजूदा कारोबारियों की मदद करेंगे। यह वेबसाइट कई फायदे उजागर करेगी, जो ब्रैम्पटन शानदार निवेश स्थान के तौर पर पेश करता है।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कोविड-19 से आर्थिक बहाली की ओर आगे बढ़ते हुए, हमें संभावनी निवेशकों, खासकर विदेशी निवेशकों से जुड़ने के नए तरीके ढूँढने की जरूरत है। हमें निवेश को आकर्षित करने के लिए नए तरीके के तौर पर, अपने दृष्टिकोण को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिशनों में बदलने की जरूरत होगी। वेबसाइट [investbrampton.ca](http://investbrampton.ca) से, आमने-सामने बातचीत करने और संबंध बनाने के हमारे प्रयासों के अलावा, हमारे संभावनी निवेशक आसानी से और एक जगह पर ही, आवश्यक शुरुआती जानकारी ले पाएंगे।”

– *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; को-चेयर, मेयर्स कोविड-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स*

“कोविड-19 के दौरान, इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स, लोकल कारोबारियों के साथ, पूरी मेहनत से काम करती रही है। यह इस सहयोग को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हमारी लोकल अर्थव्यवस्था बहाल हो पाए और मज़बूत बन पाए। हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी, आगे बढ़ने में हमारी सिटी के लचकीले और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को सुनिश्चित करने में मदद करेगी।”

– *माइकल पलेशी (Michael Palleschi), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; को-चेयर, मेयर्स कोविड-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स*

“पूरे देश के कारोबारियों और संगठनों की तरह ही, हमारी सिटी ने कोविड-19 के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव महसूस किए हैं। आगे बढ़ने में, आर्थिक बहाली हमारे लिए मुख्य फोकस है। हम कई प्रकार की पहलकदमियों पर विचार करेंगे, जो मिलकर हमें आगे बढ़ाएंगी।”

– *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](https://twitter.com/brampton), [Facebook](https://facebook.com/brampton), और [Instagram](https://instagram.com/brampton) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)